

## अध्याय 6

### कर बीजक, प्रत्यय और विकलन टिप्पणि

#### नियम 46 : कर बीजक

नियम 54 के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा धारा 31 में निर्दिष्ट कर बीजक जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं, जारी किए जाएंगे, अर्थात् :

- (क) प्रदायकर्ता का नाम, पता और माल या सेवा कर पहचान संख्या;
  - (ख) चौदह अक्षर से अनधिक क्रमिक क्रम संख्यांक, एक या बहु क्रम में, जिसके अन्तर्गत वर्णमाला या संख्या या विशिष्ट वर्ण – हाइफन या डेश या स्लेस प्रतीक जैसे “–” और “//” क्रमशः और उनका कोई संयोजन, वित्तीय वर्ष के लिए यूनिक होगा;
  - (ग) उसके जारी करने की तारीख;
  - (घ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल और सेवाकर पहचान संख्या या विशिष्ट पहचान संख्या यदि रजिस्ट्रीकृत हैं;
  - (ड.) प्राप्तिकर्ता का नाम पता और परिदान का पता, राज्य के नाम और उसके कोड के साथ, यदि ऐसा प्राप्तिकर्ता अरजिस्ट्रीकृत है और जहां कराधेय प्रदाय का मूल्य पचास हजार रुपये या उससे अधिक है;
  - (च) प्राप्तिकर्ता का नाम और पता और परिदान के पते के लिए राज्य का नाम और उसका कोड, यदि ऐसा प्राप्तिकर्ता अरजिस्ट्रीकृत है और जहां कराधेय प्रदाय का मूल्य पचास हजार रुपए से कम है और प्राप्तिकर्ता प्रार्थना करता है कि ऐसा व्यौरा कर बीजक में अभिलिखित किया जाए;
- ¹[परंतु ²[आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति को अंतर्वलित करने वाले मामलों में] जहां कोई कर योग्य सेवा किसी इलैक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा या उसके माध्यम से या ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस एक्सेस या पुर्नप्राप्ति सेवाओं के आपूर्तिकर्ता द्वारा एक प्राप्तकर्ता को आपूर्ति की जाती है, जो अरजिस्ट्रीकृत है, ऐसे प्रदाय के मूल्य के बावजूद एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी किए गए कर बीजक में ³[प्राप्तकर्ता के राज्य का नाम और इसे प्राप्तकर्ता के अभिलेख में पते के रूप में समझा जाएगा।]**

- (छ) माल और सेवा का नामपद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली;
- (ज) मालों और सेवाओं का वर्णन;
- (झ) माल और इकाई या उसके यूनिक मात्रा कोड की दशा में, मात्रा;
- (ञ) मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का कुल मूल्य;
- (ट) छूट या उपशमन को हिसाब में लेते हुए माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का कराधेय मूल्य;

**1** अधिसूचना क्रमांक 26 / 2022 – केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2022)।

**2** अधिसूचना क्रमांक 51 / 2023 – केन्द्रीय कर, दिनांक 29.09.2023 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2023)।

**3** अधिसूचना क्रमांक 38 / 2023 – केन्द्रीय कर, दिनांक 04.08.2023 द्वारा शब्द “प्राप्तिकर्ता का नाम और पता के साथ उसका पिन कोड और राज्य के नाम शामिल करना होगा और उक्त पते को प्राप्तकर्ता के रिकार्ड पर पता समझा जाएगा।” प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 04.08.2023)।

## केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (ठ) कर की दर (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य कर या सेस);
- (ड) कराधेय मालों या सेवाओं की बाबत भारित कर की रकम (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या सेस);
- (ढ) राज्य के नाम के साथ प्रदाय का स्थान, अन्तरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में प्रदाय की दशा में;
- (ण) परिदान का पता जहां वह प्रदाय के स्थान से भिन्न है;
- (त) क्या कर आरक्षित भार आधार पर देय है; और
- (थ) प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर;

**४[(द)]** नियम 48 के उपनियम (4) के अधीन विहित रीति में बीजक जारी किए जाने के मामले में, इसमें बीजक सन्दर्भ संख्या (आई.आर.एन.) सन्तुष्टिकृत करने वाला त्वरित प्रत्युत्तर कोड।]

**५[(ध)]** नीचे दी गई एक घोषणा की, उन सभी मामलों में, जहां ऐसे करदाता, जिसका 2017–18 से आगे किसी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, नियम 48 के उप-नियम (4) के अधीन यथा अधिसूचित समग्र आवर्त से अधिक समग्र आवर्त है, के द्वारा नियम 48 के उक्त उप-नियम (4) के अधीन इस प्रकार विनिर्दिष्ट रीति से भिन्न रीति में बीजक जारी किया गया है, वहां नियम 48 के उक्त उप-नियम (4) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में बीजक जारी किया जाना आवश्यक नहीं है।

"मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हुं/करते हैं, कि यद्यपि 2017–18 से किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में हमारा कुल कारोबार नियम 48 के उप-नियम (4) के तहत अधिसूचित कुल कारोबार से अधिक है, फिर भी हमें उक्त उप-नियम के प्रावधानों के अनुसार बीजक तैयार करने की आवश्यकता नहीं है।":]

**६[परन्तु बोर्ड, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कर सकेगा—**

- (i) माल या सेवाओं के लिए नाम प्रति कोड की सुमेलित प्रणाली के अंकों की संख्या, जिसकी किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा उल्लेख किया जाना आवश्यक है; या
- (ii) माल या सेवाओं के प्रदाय का कोई ऐसा वर्ग, जिसके लिए नामपद्धति कोड की सुमेलित प्रणाली के अंकों की विनिर्दिष्ट संख्या का सभी रजिस्ट्रीकृत करदाताओं द्वारा उल्लेख किया जाना आवश्यक है; और
- (iii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग, जिससे माल या सेवाओं के लिए नामपद्धति कोड की सुमेलित प्रणाली का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं होगा :]

**४** अधिसूचना क्रमांक 72/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 30.09.2020 द्वारा खण्ड (द) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 30.09.2020)। [इस हेतु शुप्रियत्र सा.का.नि. 611(इ), दिनांक 01.10.2020 प्रकाशित]।

**५** अधिसूचना क्रमांक 14/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा खंड (ध) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 05.07.2022)।

**६** अधिसूचना क्रमांक 79/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 15.10.2020 द्वारा परंतुक प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 15.10.2020)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था –

"परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगा—

- (i) माल या सेवाओं के लिए नाम प्रति कोड की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली की संख्या, जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग से उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई ऐसी अवधि के लिए उल्लेख अपेक्षित होगा; और
- (ii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग जिनसे माल और सेवाओं के लिए नामपद्धति कोड की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई ऐसी अवधि के लिए अपेक्षित नहीं होगा :

## केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

<sup>7</sup>[.....]

<sup>8</sup><sup>9</sup>[परंतु यह और कि माल और सेवा के निर्यात की दशा में] बीजक पर, यथास्थिति, “निर्यात/एसईजेड इकाई या एसईजेड विकासकर्ता को एकीकृत कर के संदाय पर प्राधिकृत प्रचालनों के लिए पूर्ति” या “निर्यात/एसईजेड इकाई या एसईजेड विकासकर्ता को एकीकृत कर का संदाय किए बिना बंधपत्र या वचनबंध के अधीन प्राधिकृत प्रचालनों के लिए पूर्ति का पृष्ठांकन होगा और खंड (ड.) में विनिर्दिष्ट ब्यौरों के स्थान पर निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात् :

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति <sup>10</sup>[बहुविद्ध स्क्रीन में सिनेमा फिल्मों के प्रदर्शन में प्रवेश के माध्यम से सेवाओं की पूर्ति करने में लगे हुए पूर्तिकार से भिन्न] निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए धारा 31 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसरण में कर बीजक जारी नहीं कर सकेगा, अर्थात्

- (i) प्राप्तिकर्ता का नाम और पता;
- (ii) परिदान का पता; और
- (iii) गंतव्य देश का नाम :]

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति <sup>11</sup>[बहुविद्ध स्क्रीन में सिनेमा फिल्मों के प्रदर्शन में प्रवेश के माध्यम से सेवाओं की पूर्ति करने में लगे हुए पूर्तिकार से भिन्न] निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन

<sup>7</sup> अधिसूचना क्रमांक 20 / 2024—केन्द्रीय कर, दिनांक 08.10.2024 द्वारा द्वितीय परंतुक विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.11.2024)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :

“परन्तु यह और कि धारा 31 की उपधारा (3) के खण्ड (च) के अधीन बीजक जारी किया जाना अपेक्षित है, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन आने वाले प्रदायाओं के लिए मास के अंत में समेकित बीजक जारी कर सकता है, जब एक दिन में किसी प्रदायकर्ता या सभी प्रदायकर्ताओं से ऐसे प्रदायाओं का समुचित मूल्य पांच हजार से अधिक है।”

<sup>8</sup> अधिसूचना क्रमांक 17 / 2017—केन्द्रीय कर, दिनांक 27.07.2017 द्वारा तृतीय परंतुक प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 27.07.2017)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

“परन्तु यह कि माल और सेवाओं के निर्यात की दशा में बीजक में ‘एकीकृत कर के संदाय पर निर्यात के लिए प्रदाय’ या एकीकृत कर के संदाय के बिना बांड या करार या वचनबंध के अधीन निर्यात के लिए प्रदाय” जैसा भी मामला हो पृष्ठांकित होगा, और खंड (ड) में विनिर्दिष्ट ब्यौरे के बजाय, निम्नलिखित ब्यौरा अन्तर्विष्ट होगा, अर्थात् :-

- (i) प्राप्तिकर्ता का नाम और पता
- (ii) परिदान का पता, और
- (iii) गंतव्य देश का नाम

<sup>9</sup> अधिसूचना क्रमांक 20 / 2024—केन्द्रीय कर, दिनांक 08.10.2024 “परन्तु यह भी कि माल या सेवाओं के निर्यात की दशा में” के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.11.2024)।

<sup>10</sup> अधिसूचना क्रमांक 33 / 2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 18.07.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.09.2019)।

<sup>11</sup> अधिसूचना क्रमांक 33 / 2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 18.07.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.09.2019)।

## केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

रहते हुए धारा 31 की उप—धारा (3) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसरण में कर बीजक जारी नहीं कर सकेगा, अर्थात्,-

- (क) प्राप्तिकर्ता एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नहीं हैं, और
- (ख) प्राप्तिकर्ता से ऐसा बीजक अपेक्षित नहीं होता है और

सभी ऐसी प्रदाययों के संबंध में प्रत्येक दिन की समाप्ति पर ऐसी प्रदाय के लिए एकीकृत कर बीजक जारी करेगा।

**12**[परन्तु यह भी कि प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अनुसार प्रदाय के इलैक्ट्रानिक बिल बीजक जारी किए जाने के मामले में अपेक्षित नहीं होंगे।]

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति **13**[बहुविद्ध स्क्रीन में सिनेमा फिल्मों के प्रदर्शन में प्रवेश के माध्यम से सेवाओं की पूर्ति करने में लगे हुए पूर्तिकार से भिन्न] निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए धारा 31 की उप—धारा (3) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसरण में कर बीजक जारी नहीं कर सकेगा, अर्थात्,-

- (क) प्राप्तिकर्ता एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नहीं हैं, और
- (ख) प्राप्तिकर्ता से ऐसा बीजक अपेक्षित नहीं होता है और सभी ऐसी प्रदाययों के संबंध में प्रत्येक दिन की समाप्ति पर ऐसी प्रदाय के लिए एकीकृत कर बीजक जारी करेगा।

**14**[परन्तु यह भी कि प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अनुसार प्रदाय के इलैक्ट्रानिक बिल बीजक जारी किए जाने के मामले में अपेक्षित नहीं होंगे।]

**15**[परन्तु यह भी कि सरकार, अधिसूचना द्वारा, परिषद की सिफारिशों पर और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो उसमें वर्णित किए जाएं, यह विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि प्रदाय पत्र का त्वरित प्रतिक्रिया (क्यू आर) कोड होगा।]

---

**12** अधिसूचना क्रमांक 74 / 2018—केन्द्रीय कर, दिनांक 31.12.2018 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 31.12.2018)।

**13** अधिसूचना क्रमांक 33 / 2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 18.07.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.09.2019)।

**14** अधिसूचना क्रमांक 74 / 2018—केन्द्रीय कर, दिनांक 31.12.2018 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 31.12.2018)।

**15** अधिसूचना क्रमांक 31 / 2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 71 / 2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 13.12.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.04.2020 से प्रभावशील किया गया।